



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1934 (श10)  
(सं0 पटना 407) पटना, मंगलवार, 21 अगस्त 2012

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त 2012

सं0 निग/सारा-4 (पथ) आरोप-37/12-8616 (एस)—सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 11.04.12 को पथ प्रमंडल, मोतिहारी अंतर्गत निम्नलिखित पथों यथा—(1) पचपकड़ी-गुरहेनवा पथ (2) ढाका-घोड़ासहन पथ (3) पुरनहिया-झरोखर पथ (4) मोतिहारी-बरनवाघाट-छौड़ादानो पथ (5) चकिया-मधुवन पथ (6) पकड़ीदयाल-सिरहा-मधुवन-मीनापुर पथ (7) सिरौना-पताही पथ (8) भंडार-भकुरैहिया पथ (9) मोतिहारी-मधुबनीघाट पथ (10) छपवा-हरसिद्धी-सेवराहॉ पथ (11) रामगढ़वा-बाईपास पथ (12) सुगौली-पिपरपाती पथ (13) माधोपुर-बहुरूपिया पथ (14) सुगौली-बाईपास पथ (15) चकिया-सत्तरघाट पथ (16) चकिया-मदुरापुर पथ (17) चकिया लिंक पथ (18) मेहसी लिंक पथ (19) शीतलपुर-पीपरखेम पथ (20) पीपरा लिंक पथ (21) मेन सर्विस पथ (22) आर्य समाज मंदिर का निरीक्षण किया गया एवं पथों में पॉट्स, एस0डी0बी0सी0 की खराब स्थिति एवं फलैंक क्षतिग्रस्त पाये जाने तथा defect liability period का कार्यान्वयन नहीं कराये जाने के लिए विभागीय पत्रांक 71/गो0, दिनांक 17.04.12 द्वारा श्री सुभाष चन्द्र श्रीहर्ष, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री श्रीहर्ष ने अपने पत्रांक शून्य, दिनांक 20.04.12 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उक्त पथों में क्रमांक 1-3, 6-8 एवं 10 अपने से संबंधित बताते हुए अंकित किया कि उनके द्वारा संवेदक को defect liability period के अंतर्गत कार्य कराने हेतु पत्र दिया गया एवं अप्रैल 12 में defect liability period अंतर्गत उक्त कुछ पथों का कार्य कराया गया एवं बाकी पथों का कराया जा रहा है। उनके द्वारा कर्तव्य निर्वहन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरते

जाने की बात कही गयी। श्री श्रीहर्ष से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि सचिव के निरीक्षण के उपरान्त उक्त पथों में defect liability period के तहत कार्रवाई की गई। उनसे अपेक्षित था कि वे संवेदक से मुस्तैद होकर कार्य कराते एवं संवेदक द्वारा कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव विभाग को भेजते, परन्तु श्री श्रीहर्ष द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य में कोई ठोस कार्रवाई न कर महज पत्राचार किया गया जो उनके कार्य में घोर लापरवाही एवं शिथिलता का द्योतक है।

3. तद्दालोक में श्री सुभाष चन्द्र श्रीहर्ष, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, किशनगंज से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए उन्हें निम्न दंड संसूचित किया जाता है:-

(i) एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के उप-सचिव (निगरानी)।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 407-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>